

November 26, 2025

National Stock Exchange of India LimitedBSE LimitedExchange Plaza,Corporate Relationship DepartmentC-1, Block-G, Bandra Kurla Complex,Phiroze, Jeejeebhoy TowersBandra (E), Mumbai - 400051Dalal Street, Mumbai-400001NSE Symbol: CSLFINANCEBSE Scrip Code: 530067

Dear Sir/Ma'am,

<u>Sub: Newspaper Publication regarding Final Notice to Shareholders on Special Window for Relodgement of Transfer Requests of Physical Shares of CSL Finance Limited.</u>

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the extracts of the newspaper publications made in Financial Express (English edition) and Jansatta (Hindi edition) on Wednesday, November 26, 2025.

These publications pertain to the Final Notice to Shareholders regarding the opening of the Special Window for re-lodgement of transfer requests of physical shares, in accordance with SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 02, 2025.

In addition, the Company has also uploaded posts on its official social media handles regarding the same.

For your reference, the respective links to the posts on LinkedIn, Instagram, and Facebook are enclosed herewith.

Instagram: https://www.instagram.com/p/DRegzR8kTNe/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/13246935/admin/page-posts/published/

Facebook: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1244477477698344&set=a.447858667360233

Kindly take the same in your record.

Thanking you.

Yours Faithfully,

For CSL Finance Limited

Rohit Gupta (Managing Director) DIN: 00045077 Continued from previous page...)

4) Allotment to Market Maker: The Basis of Allotment to Market Maker who have bid at Issue Price of ₹ 150/- per Equity Share, was finalized in consultation with BSE. The category was subscribed by 1.00 times i.e. for 1,25,000 Equity shares, the total number of shares allotted in this category is 1,25,000 Equity Shares. The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for (Category wise)	No. of Applica- tions Received	% of Total	Total No. of Shares Applied in this category	% to Total	No. of Equity Shares allocated/ allotted per Applicant	Ratio	Total No. of shares allocated/ allotted
1,25,000	1	100.00	1,25,000	100.00	1,25,000	1:1	1,25,000

Allotment to QIBs excluding Anchor Investors (After Rejections):

Allotment to QIBs, who have bid at the Issue Price of ₹150/- per Equity Share has been done on a proportionate basis in consultation with BSE. This category has been subscribed to the extent of 228.07 times of QIB portion. The total number of Equity Shares allotted in the QIB category is 4,74,000 Equity Shares, which were allotted to 88 successful Applicants.

Category	FI'S/BANK'S	MF'S	IC'S	NBFC'S	AIF	FPI	Others	Total
QIB	24000	27000	4000	47000	238000	134000	0	4,74,000
6) Allotment to A	nchor Investors (Afte	er Technical Re	iections):		2)	W	37	,

The Company in consultation with the BRLM has allocated 7,09,000 Equity Shares to 4 Anchor Investors at the Anchor Investor Issue Price of ₹ 150 per Equity Shares in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations. This represents upto 60% of the QIB Category.

CATEGORY	FIS/BANKS	MFS	IC'S	NBFC'S	AIF	FPI	VC'S	TOTAL
ANCHOR	¥	833	(9		366000	343000	2	7,09,000
Lacing the control of	Santa anno a una assassa del	wast-contact tour dust in a visit.	CONTRACTOR CONTRACTOR INCOME.	SLAV say program out were con-		le bannanavnesu suut – cul	Classic Latterpasson Coasts of	a province of the second services

The Board of Directors of our Company at its meeting held on November 24, 2025 has taken on record the basis of allotment of Equity Shares approved by the designated Stock Exchange, being BSE and has allotted the Equity Shares to various successful applicants. The Allotment Advice Cum Refund Intimation will be dispatched to the address of the investors as registered with the depositories. Further, instructions to the SCSBs have been dispatched / mailed for unblocking of funds and transfer to the Public Issue Account on or before November 25, 2025. In case the same is not received within ten days, Investors may contact the Registrar to the Issue at the address given below. The Equity Shares allotted to the successful allottees shall be uploaded on November 25, 2025 for credit into the respective beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company is in the process of obtaining the listing and trading approval from BSE and the trading of the Equity Shares is expected to commence trading on November 26, 2025.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus dated November 24, 2025 filed with the Registrar of Companies, Gwalior, Madhya Pradesh, ("RoC").

INVESTORS PLEASE NOTE

The details of the allotment made has been hosted on the website of the Registrar to the Issue, Ankit Consultancy Private Limited at website: https://

www.ankitonline.com

TRACK RECORD OF BOOK RUNNING LEAD MANAGER: The BRLM has handled three SME public issues so far out of which none of the issue has closed below issue price on the listing date.

All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/ Sole Bidder Serial number of the ASBA form, number of Equity Shares bid for, Bidder DP ID, Client ID, PAN, date of submission of the Bid cum Application Form, address of the Bidder, the name and address of the Designated Intermediary where the Bid cum Application Form was submitted by the Bidder and copy of the Acknowledgment Slip received from the Designated Intermediary and payment details at the address given below:



ANKIT CONSULTANCY PRIVATE LIMITED

Address: 60, Electronic Complex, Pardeshipura, Indore (M.P.) 452010, India Telephone: +91-0731-4949444 | Email: compliance@ankitonline.com

Investor Grievance Email: investor@ankitonline.com | Website: https://www.ankitonline.com Contact Person: Saurabh Maheshwari | SEBI Registration Number: INR000000767

> On behalf of Board of Directors Gallard Steel Limited Zakiuddin Sujauddin **Designation:** Managing Director

Place: Indore, Madhya Pradesh Date: November 25, 2025

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF GALLARD STEEL LIMITED.

Disclaimer: Gallard Steel Limited has filed the Prospectus with the RoC on November 24, 2025 and thereafter with SEBI and the Stock Exchange. The Prospectus is available on the website of the BRLM, Seren Capital Private Limited at www.serencapital.in and the Company at: www.gallardsteel.com and shall also be available on the website of the BSE and SEBI. Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please see "Risk Factors" beginning on page 28 of the Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. state securities laws. The Equity Shares are being Issued and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance on Regulation under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such Issues and sales are made. There will be no public Issuing in the United States.

© CSL Finance Limited

DIN: 03482802

This is only an advertisement for information purposes and not for publication, distribution, or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated October 01, 2025(the 'Letter of Offer') filed with the Stock Exchange, namely NSE Emerge, where presently the Equity Shares of the Company are listed, and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI")



Indian Emulsifiers Limited

INDIAN EMULSIFIERS LIMITED

Corporate Identification Number: L46691MH2020PLC351364

Registered Office: Shop 206, Foor-2, Sumer Kendra, Shivram Seth Amrutwar Road, Near Doordarshan Kendra, Off Pandurang Budhwar Marg, Worli, Mumbai, Maharashtra, India, 400018;

Contact Details; +91- 022-31298350; Contact Person; Mr. Ramraj Singh Thakur, Company Secretary & Compliance Officer;

Email-ID: info@indianemulsifiers.com | Website: www.indianemulsifiers.com OUR PROMOTERS - MR. YASH TIKEKAR

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF INDIAN EMULSIFIERS LIMITED ONLY

ISSUE OF UP TO 61,11,111* FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF Rs.10.00/- (RUPEE TEN ONLY) ('EQUITY SHARES') EACH AT A PRICE OF Rs.80.00/- (RUPEES EIGHTY ONLY) PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF Rs.70.00/- (RUPEES SEVENTY ONLY) PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") ("RIGHT SHARES") FOR AN AMOUNT AGGREGATING UP TO Rs.48,88,88,880 (RUPEES FORTY EIGHT CRORE EIGHTY EIGHT LAKH EIGHTY EIGHT THOUSAND EIGHT HUNDRED EIGHTY ONLY) ON A RIGHTS ISSUE BASIS TO THE ELIGIBLE SHAREHOLDERS OF INDIAN EMULSIFIERS LIMITED ('COMPANY' OR 'ISSUER') IN THE RATIO OF 1 RIGHTS SHARES FOR EVERY 2 EQUITY SHARES HELD BY SUCH ELIGIBLE SHAREHOLDERS AS ON THE RECORD DATE, FRIDAY, OCTOBER 10, 2025 ('ISSUE'). THE ISSUE PRICE IS EIGHT TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE.

FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO THE CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 122 OF THIS LETTER OF OFFER *Assuming full subscription.

PAYMENT METHOD FOR THE ISSUE						
AMOUNT PAYABLE PER RIGHT SHARE	Face Value	Premium	Total			
On Application	10	70	80			
Total	10	70	80			

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of our Company thanks all its Equity Shareholders and investors for their response to the Issue, which opened for subscription on Friday, October 24, 2025 and closed on Friday, November 21, 2025. Out of the total 1630 Applications for 1,03,90,500 Right Equity Shares, through the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA"), 209 Applications for 1,64,250 Right Equity Shares were rejected due to technical reasons as disclosed in the LOF. In accordance with LOF, additional shares applied by these applicants were not considered for allotment. The total number of valid Applications received were 1421 for 1,02,26,250 Rights Equity Shares, which was 167.34 % of the Issue Size. In accordance with the LOF, the Basis of Allotment was finalized on Monday, November 24, 2025 by the Company, in consultation with the Registrar to the Issue and NSE Emerge. The Rights Issue Committee of the Board of Directors of the Company, passed the resolution on Monday, November 24, 2025, took on record the Basis of Allotment and approved the allotment of 61,11,000 Rights Equity Shares to successful applicants. In the Issue, none of the Rights Equity Shares have been kept in abeyance. All valid Applications after rejections of bids received from Non-Eligible Shareholders and technical rejections have been considered for allotment.

Information regarding total Applications received:

Category	No. of Applications	Rights Equity Shares applied for	Number of Equity Shares Allotted - against REs	Number of Equity Shares Allotted - Against valid Additional shares	Total Rights Equity Shares Allotted
Eligible Shareholders	1058	5672250	3151500	923500	40,75,000
Renounces	376	4603250	2036000\	0	2036000
Neither a Shareholder nor Renouncee	197	115250		0	0
Total	1631	10390750	5187500	923500	61,11,000

Summary of allotment in various categories are as under No. of Rights Equity Shares No. of Rights Equity Shares accepted Number of Total Rights Equity valid applications accepted and allotted against and allotted against Additional Rights Applicants Shares accepted and Rights Entitlement (A) **Equity Shares applied** received allotted (A+B) Eligible Shareholders 1046 31,51,500 9,23,500 40,75,000 375 20,36,000 20,36,000 Renounces 0 1421 51,87,500 9.23,500 61,11,000

In accordance with the Letter of Offer and based on the basis of allotment being finalized on Monday, November 24, 2025, in consultation with the Issuer Company, the Registrar, NSE Emerge, Designated Stock Exchanges for the Issue, the Company has on Monday, November 24, 2025 allotted 61,11,000 (Sixty One Lakh Eleven Thousand Only) Fully paid-up Rights Shares to the successful applicants. We hereby confirm that all the valid applications considered for Allotment.

The dispatch of Allotment Advice cum Refund Intimation to the Investors, as applicable, will be completed on or before November 24, 2025. The instructions for unblocking of funds of ASBA Applications were issued to SCSBs on November 24, 2025. The listing application has been submitted to NSE Emerge on November 24, 2025. The credit of Rights Equity Shares to the respective demat accounts of the allottees in respect of Allotment in the dematerialized form will be completed on November 25, 2025. For further details, see "Terms of the Issue - Allotment Advice or Refund/Unblocking of ASBA Accounts" on page 145 of the LOF. The trading in fully paid-up Equity Shares issued in the Rights Issue shall commence on Stock Exchange under ISIN - INEORRU01016 upon receipt of trading permission. Pursuant to the listing and trading approval granted by Stock Exchange, the Rights Equity Shares Allotted in the Issue is expected to commence trading on Stock Exchange on or about November 26, 2025. Further, in accordance with SEBI Master circular bearing reference no. SEBI/HO/CFD/PoD-1/P/CIR/2024/0154 dated November 11, 2024, the request for extinguishment of Rights Entitlements will be sent to NSDL & CDSL on or before

INVRSTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE") IN DEMATERIALISED DECLAIMER CLAUSE OF NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE") (DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distantly understood that the permission

given by NSE should not, in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by NSE, nor does it certify the correctness or completeness of any contents of Letter of Offer. The investors are advised to refer to the Letter of Offer in the foil text of the 'Disclaimer Clause of NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE") on the page 147 of the Letter of Offer. REGISTRAR TO THE ISSUE COMPANY DETAILS

INDIAN EMULSIFIERS LIMITED	MAASHITLA SECURITIES PRIVATE LIMITED
Registered Office: Shop 206, Foor-2, Sumer Kendra, Shivram	Registered Office: 451, Krishna Apra Business Square,
Seth Amrutwar Road, Near Doordarshan Kendra, Off Pandurang	Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi 110034, India.
Budhwar Marg, Worli, Mumbai, Maharashtra, India, 400018.	Telephone: +011 4512 1795
Contact No: + 91- 022-31298350	Email: gogreen@maashitla.com
Contact Person: Mr. Ramraj Singh Thakur, Company Secretary	Investor Grievance e-mail: ig@maashitla.com
and Compliance Officer;	Website: www.maashitla.com
Email-ID: info@indianemulsifiers.com	Contact Person: Mukul Agarwal
Website: www.indianemulsifiers.com	SEBI Registration Number: INR000004370
Corporate Identity Number: L46691MH2020PLC351364	CIN No: U67100DL2010PTC208725

investors may contact the Registrar or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre-issue or post Issue related matter. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar, with a copy to the SCSBs giving full details such as name, address of the Applicant, contact number(s), e-mail address of the Sole/ first holder, folio number or demat account number, number of Rights Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number, and the Designated Branch of the SCSBs where the Application Form or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

> Indian Emulsifiers Limited On behalf of the Board of Directors

Place: Mumbai Date: November 25, 2025

Mr. Yash Tikekar Managing Director Date of listing (on or about)

Date: November 25, 2025

Place: Vadodara, Gujarat

The Letter of Offer is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, NSE at www.nseindia.com. Registrar at www.maashitla.com, Investor should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and for details of risk and for details relating to the same, please see the section entitled 'Risk Factor' beginning on page 26 of the

The Rights Entitlements and the Rights Shares have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the 'US Securities Act') or under any securities laws of any state or other jurisdiction of the United States and may not be offered, sold, resold, allotted, taken up, exercised, renounced, pledged, transferred or delivered, directly or indirectly within United States or to, or for the account or benefit of U.S. person (as defined in regulation except for this purposes, U.S. Persons include person who would otherwise have been excluded from such term solely by virtue of rule 902(K)(1)(VIII)(B) or Rule 902(K)(2)(I), except pursuant to the exemption from, or in transaction not subject to, the registration requirement of U.S. Securities Act and in compliance with any applicable securities laws of any state or other jurisdiction of the United States. Accordingly, the Rights Entitlement and Rights Shares were offered and sold (i) in offshore transaction outside in the United States to the non U.S. person in compliance with the Regulation S to the Existing Shareholder located in the Jurisdiction where such offer and the state of Rights Shares is permitted under law of such jurisdiction, and (ii) in the United States to U.S. QIBs and are also Qualified Purchasers pursuant to applicable exemptions under the U.S Securities Act and Investment Company Act. There will be no public offering in the United States. The Rights Shares and Rights Entitlements are not transfer able except in accordance with the restrictions.

CSL Finance Limited

CIN: L74899DL1992PLC051462

Regd. Office: 410-412,18/12, 4th Floor, W.E.A., Arya Samaj Road, Karol Bagh, New Delhi -110005 Tel: 0120-4290650, Email: investor@cslfinance.in, Website: www.cslfinance.in

FINAL REMINDER NOTICE WITH RESPECT TO SPECIAL WINDOW FOR

RE-LODGEMENT OF TRANSFER REQUESTS FOR PHYSICAL SHARES SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER REQUEST OF PHYSICAL

SHARES. Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97, dated July 02, 2025, the Company is pleased to offer one-time special window for physical shareholders to submit re-lodgment requests for the transfer of shares. The Special

Window will be open from July 07, 2025 to January 06, 2026 and is applicable to cases where original share transfer requests were lodged prior to April 01, 2019 and were returned/unattended or rejected due to deficiencies in documentation, process or any other reason. The shares re-lodged for transfer will be processed only in dematerialized orm during this window. Eligible shareholders may submit their transfer requests along with the requisite documents to the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) MAS Services Limited T-34, 2nd Floor, Okhla Industrial Area Phase - II, New Delhi UPDATE KYC AND CONVERT PHYSICAL SHARES INTO DEMAT MODE.

The Shareholders who are holding shares in physical form are requested to update their

KYC and also requested to convert their physical share Certificates in to dematerialized form (electronic form). The shareholders are also requested to claim their unclaimed dividend amounts, otherwise, the same will be transferred to Investor Education and Protection Fund Authority (IEPFA) after expiry of seven years along with the Shares For CSL Finance Limited

Date: 25.11.2025 Place: Noida

Preeti Gupta (Company Secretary & Compliance Officer)

PUBLIC NOTICE

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

This is to inform the General Public that following share certificate of FORCE MOTORS LTD, having its Registered Office at Mumbai-Pune Road, Akurdi, Pune 411035 registered in the name of the Mrs. Basantabai Pannalal Changede have been lost by them. Ca Name of the Calle Cartificate Distinctive No. of

Sr. No.	Shareholder/s	No.	No/s	Number/s	Shares
	Mrs.Basantabai Pannalal	B000080	14443	819359 to 819408	50
1.	Changede		27667	1635217 to 1635316	100
				19999715	150

The Public are hereby cautioned against purchasing or dealing in any way with the above referred share certificates.

Any person who has any claim in respect of the said share certificate/s should lodge such claim with the Company at e-mail id: compliance-officer@ forcemotors.com or its Registrar and Transfer Agents MUFG Intime India Private Limited, Block No. 202, 2" Floor, Akshay Complex, Opp. Dhole Patil Road, Pune-411001 e-mail id : sandip.pawar@in.mpms.mufg.com within 15 days of publication of this notice after which no claim will be entertained and the Company shall proceed to issue Duplicate Share Certificate/s

Name of Claimant Yogesh Shrikant Changediya

Date: 26/11/2025

Place: Ahmednagar

Kanta Shrikant Changediya

This advertisement is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated November 01, 2025 the "Letter of Offer" or ("LOF") filed with the BSE Limited ("BSE") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").



(Formerly Known as J. Taparia Projects Limited) CIN: L46101WB1980PLC032979

ANNVRRIDHHI VENTURES LIMITED (Formerly Known as J. TAPARIA PROJECTS LIMITED) (CIN: L46101WB1980PLC032979) was incorporated on September 08, 1980 as public limited company under the Companies Act, 1956 in Calcutta. The Company obtained the Certificate of Commencement of Business on October 08, 1980, from the Registrar of Companies, West Bengal. The Corporate Office of the Company is situated at: Office No 306 3rd Floor, Urban 2 Bhayli, Vasna Road, Vadodara, Gujarat-390007. The Registered Office of the Company is situated at: Room No. 202, 41/A, Tara Chand Dutta Street, 2nd Floor, Chittaranjan Avenue Kolkata, West Bengal-700073. For details of changes in registered office of our Company, see 'General Information' beginning on page 44 of the Letter of Offer. The Company has received a new Certificate of Incorporation pursuant to the change of name to "ANNVRRIDHHI VENTURES LIMITED" dated November 15, 2024 from the office of the Central Processing Centre. For details of changes in the name and registered office of our Company, refer chapter titled "General Information" on page 44 of this Letter of Offer.

Corporate Office: Office No 306 3rd Floor, Urban 2 Bhayli, Vasna Road, Vadodara, Gujarat-390007 Registered Office: Room No. 202, 41/A, Tara Chand Dutta Street, 2nd Floor, Chittaranjan Avenue Kolkata, West Bengal-700073

Contact Number: +91 76000 94367 Contact Person: Ms. Sakina Talibhusein Lokhandwala, Company Secretary and Compliance Officer. E-mail Address: office@annyrridhhi.com; Website: www.annyrridhhi.com;

THE ISSUE

RIGHTS ISSUE OF UPTO 3,78.00,000* PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF ANNVRRIDHHI VENTURES LIMITED (FORMERLY KNOWN AS J. TAPARIA PROJECTS LIMITED) (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 10.00/- EACH ("ISSUE PRICE" FOR AN AMOUNT AGGREGATING UPTO ₹ 3780.00 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 7 (SEVEN) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 3 (THREE) FULLY PAID-UP EQUITY SHARE HELD BY SUCH ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS AS ON THE RECORD DATE, FRIDAY, NOVEMBER 07, 2025, ("ISSUE"), FOR FURTHER DETAILS, KINDLY REFER TO THE SECTION TITLED 'TERMS OF THE ISSUE' BEGINNING ON PAGE 82 OF THIS LETTER OF OFFER (the "LOF")

*Assuming full subscription and receipt of all Call Monies with respect to Rights Equity Shares.

ATTENTION INVESTORS

NOTICE TO THE READER ("NOTICE")-

CORRIGENDUM CUM ADDENDUM TO LETTER OF OFFER DATED 01ST NOVEMBER, 2025 This notice should be read in conjunction with the Letter of Offer dated 01st November, 2025 filed by the Company with the Stock Exchange and SEBI and

the LOF and CAF that have been sent to the eligible equity shareholders of the company. The eligible equity shareholders are requested to please note the following:

RIGHTS ISSUE PERIOD EXTENDED ISSUE CLOSING DATE (NEW) ISSUE CLOSING DATE (OLD)

WEDNESDAY, NOVEMBER 26, 2025 WEDNESDAY, DECEMBER 10, 2025

This is to inform you that the Rights issue committee of the Board of Directors of the company at its meeting held today i.e. 25th November, 2025, has considered and approved the extension of the issue closing date of the ongoing rights issue. The date of closure of the Rights Issue, which opened on Monday, 17th November, 2025 and was scheduled to close on Wednesday, 26th November, 2025 has now been extended to Wednesday, 10th December

2025. The extension has been granted to facilitate better participation from eligible shareholders and to provide them with adequate time to subscribe to the

Accordingly, the last date of submission of the duly filled in CAF (along with the amount payable on application) is Wednesday, 10th December, 2025. Equity Shareholders of the Company who are entitled to apply for the Rights Issue as mentioned above are requested to take note of the Issue Closure Date as Wednesday, 10th December, 2025. Accordingly, the revised timeline for the Rights Issue is as follows:

Issue Opening Date Monday, 17th November, 2025 Last Date for On Market Renunciation of Rights Entitlements Thursday, 20th November, 2025 Wednesday, 10th December, 2025 Issue Closing Date Finalization of Basis of Allotment (on or about) Thursday, 11th December, 2025 Date of Allotment (on or about) Thursday, 11th December, 2025 Date of credit (on or about) Friday, 12th December, 2025

This Corrigendum cum addendum shall be available on the respective websites of the Stock Exchange at www.bseindla.com and the website of the Company at www.annvrridhhi.com ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF THE COMPANY WHO ARE ENTITLED TO APPLY FOR THE RIGHTS ISSUE ARE REQUESTED TO TAKE NOTE OF THE ISSUE

Friday, 12th December, 2025

CLOSURE DATE AS WEDNESDAY, 10TH DECEMBER, 2025. Accordingly, there is no change in the LOF AND CAF dated 01ST NOVEMBER, 2025 except for modification in the Issue Closing date. Change in Issue closing date resultant

change in indicative time table of post issue activities on account of extension of issue closing date. INVESTORS MAY PLEASE NOTE THE LETTER OF OFFER AND APPLICATION FORM SHALL BE READ IN CONJUCTION WITH THIS ADDENDUM. All capitalised terms hold reference to the Letter of Offer filed by our Company.

> For Annyrridhhi Ventures Limited (Formerly known as J. Taparia Projects Limited) On Behalf of the Board of Directors

Sarvesh Manmohan Agrawal Chairman and Managing Director

Disclaimer: Our Company is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on a rights basis and has

filed a Letter of Offer dated November 01, 2025 with the Securities and Exchange Board of India and BSE. The Letter of Offer is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, website of Stock Exchange where the Equity Shares are listed i.e. BSE at www.bseindia.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Letter of Offer including the section "Risk Factors" beginning on page 23 of the Letter of Offer. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer of Rights Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States, and any Rights Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. There will be no public offering of Rights Equity Shares in the United States.





epaper.financialexpress.com

New Delhi

फॉर्म नं. आईएनसी-26 [कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनसार 🛚

एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के पते में परिवर्तन के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विजापन दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (ए) के मामले में

मैसर्स स्किलवे कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U74999DL2021PTC389762) जिसका पंजीकत कार्यालय एच. न. 158, 1ली मंजिल, बीएलके-डी, पीकेटी-16, सेक्टर-3 रोहिणी, लैंडमार्क नजदीक जैन मंदिर, नॉर्थ वेस्ट, दिल्ली, भारत, 110085 पर स्थित है. के मामले

एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "रा. रा. क्षेत्र दिल्ली" से "केरल राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 22 नवंबर 2025 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पृष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत आवेदक कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे अपनी आपत्ति टउअ-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फॉर्म भरकर प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा उसके उपर्युक्त पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति कंपनी रजिस्ट्रार के पते: आरओसी बी-2 विंग, 2 रा तल, प दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकत डाक से भेजे: आवेदक की ओर से और उसके लिए रिकलवे कंस्टक्शन प्राइवेट लिमिटेड

अब्दुल्ला अबूबाकर दिनांक: 25.11.2025 निदेशव स्थानः दिल्ली डीआईएन: 09784797

सार्वजनिक सुचना केंद्रीय सरकार के समझ, रजिस्टार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली और हरियाणा

एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के एक राज्य से अन्य राज्य में परिवर्तन के लिए विज्ञापन सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की घारा 13 की उप-धारा (3) और सीमित देयता भागीदारी नियम. 2009 के नियम 17 के मामले में

वनक्रेस्ट इन्फ्रा एलएलपी (एलएलपीआईएन : एसीएच--9703) जिसका पंजीकृत पता : 206, दूसरी मंजिल, दीनार भवन, बिल्डिंग नंबर 44, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली, दिल्ली- 110019

...आवेदक / याचिकाकर्ता एलएलपी सर्वसाधारण को सुधित किया जाता है कि "**वनक्रेस्ट इनक्र** एलएलपी" ने सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 (3) के तहत रजिस्टार ऑफ कंपनीज, दिल्ली और हरियाणा को एक याधिका का प्रस्ताव किया है, जिसमें पंजीकृत कार्यालय को **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** सं **"हरियाणा राज्य"** में बदलने की अनुमति मांगी गई है। रलएलपी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित

स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर ए—21 पोर्टस (www.mca.gov.in) में शिकायत दर कर सकता है या एक शयथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और चसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति इस सचना के प्रकाशन की तारीख से 21 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली और हरियाणा, चौथी मंजिल, आईएफसीआई टॉक्र, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली- 110019 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक एलएलपी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें। 205, दूसरी मंजिल, दीनार भवन, बिल्डिंग नंबर 44,

नेहरू प्लेस, नई दिल्ली, दिल्ली-110019 आवेदक के लिए और उसकी ओर र

वनक्रेस्ट इन्ह्रा एलएलपी वरुण विस्मानी (नामित साझेदार) दिनांकः २५ नवंबर २०२५ स्थानः नई विल्ली बीपीआईएन: 00389509

प्ररूप संख्या युआरसी-2 अधिनियम के अध्याय XXI के भाग 1 के तहत पंजीकरण

के संबंध में सुधना का विद्यापन (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(ख) और कंपनी (रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राधिकृत) नियम, 2014 के नियम 4 (1) के अनुसरण में}

सचना दी जाती है की कंपनी अधिनियम, 2013 की

थारा 366 की उप धारा (2) के अनुसरण में रजिस्ट्रार, केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान, (आईआईसीए), प्लॉट नं. 6, 7, 8, सैक्टर-5, आईऍमटी मानेसर, जिला गुड़गांव (हरियाणा), पिन कोड- 122050 को एक आवेदन पंद्रह दिनों के बाद. लेकिन तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पहले प्रस्तावित है, की "रोज़बूड इंटरनेशनल" एक साझेदारी फर्म को कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय ग्य-के भाग 1 के अधीन शेवरों द्वारा सीमित एक निजी कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जा सकता

. कंपनी के मूल उद्देशय इस प्रकार है: सभी प्रकार के फनएँचर, सजावटी वस्तुओं और हाईवैयर सामग्रियों का निर्माण, आयात, निर्यात और

. प्रस्तावित कंपनी के प्रारूप संगम और अनुच्छेद ज्ञापन की प्रतिसिपि का निरीक्षण खसरा नंबर-582, गांव हिरन कुदना, बोल्टास गोदाम के पास, पश्चिमी दिल्ली - 110041 स्थित पंजीकृत कार्यालय में किया

सुचना दी जाती है की यदि किसी व्यक्ति को इस आवेदन पर आपत्ति है तो वह लिखित में अपनी आपत्ति इस सुचना के प्रकाशन के इक्कीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार, केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान, (आईआईसीए), प्लॉट नं. 6, 7, 8, सैक्टर-5, आईऍमटी मानेसर, जिला गुड़गांव (हरियाणा), पिन कोड- 122050, पर भेज दें तथा इसकी एक प्रति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भी भेज दें।

रोज़बुड इंटरनेशनल के लिए और उसकी ओर से इस्ता/-

गौतम गुप्ता (भागीदार) तिथि 26.11.2025 अंकुर अग्रवाल (भागीदार) स्थानः नई दिल्ली

प्ररूप संख्या युआरसी-2 अधिनियम के अध्याय XXI के माग 1 के तहत पंजीकरण के संबंध में सूचना का विज्ञापन {कंपनी अधिनियम, 2013 की **यारा 374(ख) और**

कंपनी (रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राधिकृत) नियम, 2014

के नियम 4 (1) के अनुसरण में}

सुचना दी जाती है की कंपनी अधिनियम, 2013 की चारा 366 की उप चारा (2) के अनुसरण में रजिस्ट्रार, केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान, (आईआईसीए), प्लॉट नंबर 6, 7, 8, सैक्टर-5, आईऍमटी मानेसर, जिला गुड़गांव (इरियाणा), पिन कोड- 122050 को एक आवेदन पंद्रह दिनों के बाद. लेकिन तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पहले

प्रस्तावित है, की "इन्फ्राकीज टैक्नोलॉजीज एलएलपी (एलएलपीआईएनः एसीबी-5994)" एक एलएलपी को कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय XXI के भाग 1 के अधीन शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जाए।

कंपनी के मूल उद्देशय इस प्रकार हैं: भवनी, गोदामी, उपयोगिताओं और संबंधित सिविल कार्यों और धालु और औद्योगिक वस्तुओं में व्यापार सहित सभी प्रकार के सार्वजनिक या निजी बुनियादी

इंजीनियरिंग और रखरखाव प्रस्तावित कंपनी के प्रारूप संगम और अनुच्छेद जापन की प्रतिलिपि का निरीक्षण बी-0521, पुरी 81, हाई स्ट्रीट, सैक्टर-81, फरीदाबाद-121004 स्थित पंजीकृत कार्यालय में किया जा सकता है।

डांचे का निर्माण, अनुबंच, नवीनीकरण, डिजाइन,

सुचना दी जाती है की यदि किसी व्यक्ति को इस आवेदन पर आपति है तो वह लिखित में अपनी आपत्ति इस सुचना के प्रकाशन के इक्कीस दिन के भीतर रिनस्ट्रार, बेंद्रीय पंजीकरण बेंद्र (सीआरसी), भारतीय कॉपेरिट मामलों के संस्थान, (आईआईसीए), प्लॉट नं. 6, 7, 8, सैक्टर-5,

आईऍमटी मानेसर, जिला नुडगांव (हरियाणा), पिन कोड- 122050, पर भेज दे तथा इसकी एक प्रति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भी भेज दें।

इन्फ्राकीज टैक्नोलॉजीज एलएलपी की ओर से 1. ऑकित गोयल (नामित साझेदार) 2. महक जैन (नामित साझेदार)

तिथि : 25.11.2025, स्थान : फरीदाबाद

"फॉर्म नं. यूआरसी—2"

अध्याय XXI के भाग I के अंतर्गत पंजीकरण के बारे में सूचना का विज्ञापन (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(ख) और (पंजीकरण हेत् अधिकृत) नियमावली, 2014 के नियम 4(1) के अनुसरण में)

एतदबारा यञ्ज सुचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उपचारा (2) के अनुसरण में, पंद्रह दिन के बाद लेकिन तीस दिन की समाप्ति से पहले केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संख्यान (आईआईसीए), प्लॉट नंबर 6,7,8, सेक्टर 5, आईएमटी मानेसर, जिला गडगांव हरियाणा-122050 के रजिस्टार को एक आवेदन किया जाना प्रस्तावित है कि 'वीएसके एलटेक सॉल्युशंस एलएलपी' एक एलएलपी को कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय XXI के भाग I के तहत शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। कंपनी के मुख्य सददेश्य इस प्रकार है-

एं) सॉफ्टवेयर सर्विस और सॉल्युशन, टर्नकी सॉल्युशन, एंड टू एंड सॉल्युशन सिस्टम इंटीग्रेशन और सॉफ्टवेयर, कंप्यटर हाईवेयर, मेरिफेरल्स, नेटवर्किंग डेटा प्रोसेसिंग और एनालिसिस और दूसरी सहायक गतिविधियों के उवलपमेंट सहित इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉल्युशन को डेवलप करना, स्थापित करना, मेंटेन करना, मार्केट करना, एक्सपोर्ट करना और लाइसेंस देना।

बी) भारत या विदेश में सॉफ्टवेयर, पैकेंज और एप्तिकेशन, क्लाइंट सर्वर एप्तिकेशन एंटरप्राइज रिसोर्स प्नानिंग, नेटवर्क मैनेजमेंट, आउटसोर्सिंग से जुडी सर्विस ओर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दूसरी सर्विस को डेवलप करने, डिजाइन करने मेंटेन करने, बेचने का बिजर्नेस करना।

ती) कंपनी की किसी भी एविटविटी के संबंध में रिसर्च और डेवलपमेंट का बिजनेंस करना, उसे करना और दूसरे लोगो हारा इसे करने का बढ़ावा देना, और ऐसे किसी भी दूसरे एरिया में जिससे कंपनी के बिजनेस को या कंपनी के साथ डील करने वाले या होने की संभावना वाले लोगों को फायदा हो सकता है, रिसर्च स्टेशन, फैसिलिटी और एस्टैब्स्शमेंट बनाना, मेंटेन करना और ऑपरेट करना और आम तीर पर कंपनी और दूसरे लोगों के लिए रिसर्च और डेवलपमेट में शामिल होना और उसके नतीजों का हिसाब रखना।

प्रस्तावित कंपनी के द्वापट मेमोरेंद्रम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की एक कीपी एच नं. आई-51, जी / एफ, जंगपुरा एक्सटेंशन, पोसंट ऑफिस के पास, जगपुरा, लाऊथ दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली, इंडिया-110014 पर ऑफिस में देखीं जा सकती है।

एतदद्वारा राधना दी जाती है कि इस एप्लीकेशन पर आपत्ति करने वाला कोई मी व्यक्ति, इस सचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिनों के मीतर, सेंट्रट रजिस्ट्रेशन सेंटर (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान (आईआईसीए) प्लॉट नंबर 6,7.8, सेक्टर 5, आईएमटी मानेसर, जिला गुडगांव हरियाणा-122050 के रजिस्टार की लिखित रूप में अपनी आपत्ति बता सकता है, और इसकी एक कॉमी कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में भी भेज सकता है।

दिनाक : 25.11.2025

आवेदक का नाम 1. अनीता शर्मा 2. जायुषी शर्मा खजाची

सीएसएल फाइनेंस लिमिटेड साएसएल फाइनस लिभिटेड भोआईएन: L 7 4 8 9 9 D L 1 9 9 2 P L C 0 5 1 Limited **पंजीकृत कार्यालयः** ४१०–४१२, १८/१२, चतुर्थ तल, डब्ल्यू.ई.ए.,

आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 टेलीफोनः 0120-4290650, ईमेलः investor@cslfinance.in, वेबसाइटः www.cslfinance.in

भौतिक रोयरों के लिए स्थानांतरण अनुरोधों को पूनः दाखिल करने हेत् विशेष खिड्की के संबंध में अंतिम अनुस्मारक सूचना

भौतिक शेयरों के लिए स्थानांतरण अनुरोधों को पुनः दाखिल करने हेतु विशेष खिड़की सेबी के सर्कूलर नं. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-POD/P/CIR/2025/97, तारीख 02 जुलाई, 2025 के मुताबिक, कंपनी भौतिक शेयरधारकों के लिए शेयरों के स्थानांतरण अनुरोधों को पुनः दाखिल करने के अनुरोध को जमा करने के लिए एकमुश्त विशेष खिड़की उपलब्ध करा रही है। यह विशेष खिड़की 07 जुलाई, 2025 से 06 जनवरी, 2026 तक खुली रहेगी और उन मामलों पर लागू होगी जहां मूल शेयर हस्तांतरण अनुरोध 01 अप्रैल, 2019 से पहले जमा की गई थीं और दस्तावेजीकरण, प्रक्रिया में कमी या किसी और वजह से वापस कर दी गईं/अनअटेंडेड हो गईं या निरस्त कर दी गईं। हस्तांतरण के लिए पुनः दाखिल करने किए गए शेयरों को इस खिडकी के दौरान सिर्फ विभौतिकीकृत रूप में प्रोसेस किया जाएगा। पात्र शेयरधारक अपनी स्थानांतरण अनरोध को जरूरी डॉक्यमेंटस के साथ कंपनी के रजिस्टार और शेयर टांसफर एजेंट (आरटीए) एमएएस सर्विसेज लिमिटेड टी-34, द्वितीय तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज II नई दिल्ली-110020 को जमा कर सकते हैं।

केवाईसी अपडेट करें और विभौतिकीकृत शेयर्स को डीमैट मोड में बदलें। जिन शेयरहोल्डर्स के पास विभौतिकीकृत रूप में शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपनी केवाईसी 📘 सदस्यों के रिजस्टर/लाभभौगी स्वामियों की सूची में दर्ज हैं, रिमोट ई-वीटिंग द्वारा अपना बौट डालने के अपडेट करें और अपने विभौतिकीक शेयर सर्टिफिकेटस को डीमैट फॉर्म (इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म) में बदल लें। शेयरहोल्डर्स से यह भी अनुरोध है कि वे अपने दावा न किए गए लाभांश की राशि का दावा करें, नहीं तो, इसे सात साल खत्म होने के बाद शेयर्स के साथ इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी (आईईपीएफए) को समय पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। सीएसएल फाइनेंस लिमिटेड के लिए

दिनांक : 25.11.2025 स्थान : नोएडा

(कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी)

ऋण वसुली अधिकरण-॥, दिल्ली के समक्ष

चौथा तल, जीवन तारा विल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 ऋण वसली अधिकरण (प्रक्रिया नियम) 1993 के नियम 12 व 13 के साथ पठित, बैंक एवम वित्तीय संस्थान अधिनियम 1993 के अनुसार देय ऋण की वसुली की घारा 19(4) के तहत सचना के मामले में

टीए नं 1274/2023 दिनांक 28.07.2025 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आवेदक

मैसर्स डी के इलेक्ट्रिकल्स एवं अन्यप्रतिवादी

सेवा में, प्रतिवादी डी1. मैसर्स डी के इलेक्ट्रिकल्स

इसके मालिक श्री धर्मेन्द्र कुमार शाह पुत्र रामकृष्ण शाह के माध्यम से निवासी आरजेह-16-ए/340 गली नं.10-ए जगदम्बा बिहार बेस्ट सागरपुर नई दिल्ली-46

अन्य पताः आरजेड-16-ए/351 गली नं.10-ए जगदम्बा बिहार बेस्ट सागरपुर नई दिल्ली-46

डी2. श्रीमती शोभा वेबी पत्नी धर्मेन्द्र कुमार शाह

निवासी आरजेड-16-ए/340 गली नं.10-ए जगदम्बा बिहार बेस्ट सागरपुर नई दिल्ली-46 वृकि उपरोक्त नामित आवेदक ने रु.2,10,69,913/- (दो करोड़ दस लाख उनहत्तर हजार नौ सौ तेरह रूपये मात्र) की वस्ती के लिए आपके विरूद्ध एक मुकदमा दर्ज कराया है और अधिकरण के संज्ञान में आया है कि सामान्य तरीके से आपको जानकारी देना संभव नहीं है

इसलिए इस विज्ञापन के माध्यम से सुचना देते हुए आपको 17.12.2025 को प्रात: 11:00 बजे अधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। यह ध्यान रखें कि निर्धारित तिथि को अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर इस मामले पर आपकी अनुपस्थिति में सुनवाई कर निर्णय लिया जाएगा।

सभी मामलों को वीडियो कॉन्क्रेंसिंग या भौतिक के माध्यम से लिया जा रहा है और इसके

 सभी अधिवक्ता / वादीगण को "सिस्को वेश्वेक्स" एप्लीकेशन/सॉफ्टवेयर डाउनलोड (2) "मीटिंग आईडी" एवं "पासवर्ड" सुनवाई की तिथि के लिए माननीय पीठासीन

अधिकारी / रजिस्दार द्वारा क्या मामलों में डीआरटी आधिकारिक पोर्टल "drt.gov.in" पर दैनिक बाद सुबी में ही प्रदर्शित किया जाएगा। (3) किसी भी आपातकालीन स्थिति में एडवोकेटस/लिटिगेंटस संबंधित अधिकारी से फोन नं. 23748478 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

आज 28 जुलाई 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं अधिकरण की मोहर के साथ जारी किया गया।



अधिकरण के आदेशानुसार, अनुभाग अधिकारी, डीआरटी-II, दिल्ली

डिजिटल लिमिटेड

सीआईएन : L63122DL1985PLC373314

पंजीकृत कार्यालय : 403 प्रभात किरण, 17, राजेंद्र प्लेस, दिल्ली- 110008 दुरभाष : 011-45142374 निगम कार्यालय : कैमौस्टी बिल्डिंग, प्लॉट संख्या 1, 9वीं मंजिल, सेक्टर 16ए, फिल्म सिटी, नोएडा-201301 दूरभाष : 0120-4751818, वेबसाइट : www.quintdigital.in ईमेल : cs@thequint.com भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः जमा करने हेत् विशेष विंडो के संबंध में सूचना

26 जुलाई, 2025 और 26 सितंबर, 2025 को प्रकाशित हमारे पूर्व समाचार पत्रों के विज्ञापनों के अनुसरण , हम पुनः यह बताना चाहते हैं कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') ने अपने परिपत्र संख्या 10/2025 के माध्यम से, 26 जुलाई, 2025 को, 26 सितंबर ... सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/ एमआईआरएसडी– पीओडी / पी / सीआईआर / 2025 / 97 दिनांक 2 जुलाई 2025 के तहत भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुन : प्रस्तुत करने के लिए एक विशेष विंडो शुरू की गई है। उक्त परिपत्र के अनुसार, जिन निवेशकों ने 01 अप्रैल, 2019 (जिस तिथि से प्रतिभूतियों का भौतिक रूप में हस्तांतरण बंद कर दिया गया था) से पहले भौतिक शेयरों के लिए हस्तांतरण अनुरोध प्रस्तुत किए थे, और जिनके अनुरोध दस्तावेजों / प्रक्रिया / या अन्य कारणों से अस्वीकार / वापस कर दिए गए थे / उन पर ध्यान नहीं दिया गया था, उन्हें अब आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऐसे हस्तांतरण अनुरोध

पुन : प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया है। निवेशक 7 जुलाई, 2025 से 6 जनवरी, 2026 तक की छह महीने की विशेष अवधि के दौरान, आवश्यक दस्तावेजों और किमयों को दूर करने के साथ, कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए') के पास अपने पूर्व अनुरोध पुन : प्रस्तुत कर सकते हैं। निवेशक नीचे दिए गए किसी भी पते पर कंपनी

या आरटीए को दस्तावेज भेज सकते हैं: क्विंट डिजिटल लिमिटेड

दिनांकः 25 नवंबर, 2025

स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट प्रति, कंपनी सचिव, पता– 403, प्रभात

किरण, 17, राजेंद्र प्लेस, दिल्ली, 110008,

लिमिटेड रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट इकाई : क्विंट डिजिटल लिमिटेड पता– ए—506, दत्तानी प्लाजा, अंधेरी कुर्ला रोड, सफेद पुल, अंधेरी—पूर्व, मुंबई—महाराष्ट्र 400072 डिमेल : pravin.cm@slrvlinerta.com ईमेल : cs@thequint.com

तरुण बेलवाल

स्थान : गुरुग्राम

दिनाँक : 25-11-2025

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

सदस्यता संख्या ए३९१९०

अनुपालन में सेबी के दिनांक 2 जुलाई, 2025 के परिपत्र के अनुसार, स्थानांतरण के लिए पुनः जमा की गई प्रतिभूतियाँ (जिनमें आज की तिथि तक कंपनी/आरटीए के पास लंबित अनुरोध भी शामिल हैं) ऐसे स्थानांतरण–सह–डीमैट अनुरोधों के लिए उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, केवल डीमैट रूप में जारी

हम उन सभी निवेशकों से आग्रह करते हैं जिन्होंने पूर्व में स्थानांतरण अनुरोध प्रस्तुत किए थे और जिन्हें किमयों के कारण अभी तक शेयर प्राप्त नहीं हुए हैं, कि वे निवेशकों के हित में शुरू की गई इस विशेष सुविधा का क्विट डिजिटल लिमिटेड के लिए

स्थानः नोएडा

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

ऑप्टिमस इंफ्राकॉम लिमिटेड optiemus

पंजीकृत कार्यालय: के -20, दूसरी मंजिल, लाजपत नगर - ॥, नई दिल्ली-110024 कॉपरिट कार्पालयः डी-३४८, सेक्टर-६३, नोएडा, उत्तर प्रदेश 201307 वेबसाइट: www.optiemus.com | ईमेल: info@optiemus.com | फोन: 011-29840906

प्रेस विशापन

तुद्ध द्वारा सुचित किया जाता है कि निम्नतिखित शेयर प्रमाणपत्र खो जाने/गुम हो जाने की सुचना दी गई है और ऐसे शेवर प्रमाणपत्रों के दावेदार ने इंखिकेट शेवर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कंपनी/आरटीए की आवेदन किया है:

5. 9	फोलियो संख्या	शेयरधारक का नाम	प्रमाणपत्र संख्या(ए)	विशिष्ट संख्या(एँ)	शेयरों की संख्या
	0000298	करोडी मल बंसल	21224 - 21227	2121501-2121900	400
			21271-21290	2126201-2128200	2,000
		1	21301-21304	2129201- 2129600	400
			21321 - 21321	2131201- 2131300	100
			21324- 21324	2131501- 2131600	100
			21328-21334	2131901-2132600	700
			21340-21343	2133101- 2133500	400
			21350-21353	2134101- 2134500	400
			21362-21368	2135301- 2136000	700
			21373 - 21373	2136401- 2136500	100
-1.5			कुल		5,300

कोई भी व्यक्ति जिसके पास उपरोक्त शेयर प्रमाणपत्र के संबंध में कोई दावा(वें) है इस नोटिस के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर इस तरह के दावे को '**ऑप्टिमस इंफ्राकॉम लिमिटेड**' कंपनी के पास डी-348, मेक्टर-63, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201307 में स्थित उनके कॉर्पोरेट कार्यालय में दर्ज कराना चाहिए या info@optiemus.com पर लिखें, जिसके बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और कंपनी बुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आगे बढ़ेगी।

दिनांक: 25 नवम्बर 2025

हस्ता/ विकास चंद्रा कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

ऑप्टिमस इंफ्राकॉम तिमिटेड के तिए



स्थान : नोएडा

जमना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड जिसना आदा इडस्ट्राज लि सीआईएन: L35911HR1965PLC004485

पंजीकृत कार्यालयः जय स्प्रिंग्स रोड, औद्योगिक क्षेत्र, यमुना नगर - 135001, हरियाणा कॉपोरेंट कार्यालयः युनिट नंबर 408,4वीं मीजल, टाबर-बी, वाटिका माइंडस्केप्स, सेक्टर-27डी, एनएच2, फरीदाबाद-121003(हरिवाणा)

> दूरभाष. ०१२१-४००६८६५; बेबसाइट: www.jaispring.com इंमेल आईडी: investor.relations@jaispring.com पोस्टल बैलट की सचना

एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और नियम 22 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 102, 108, 110 और अन्य लाग् प्रावधानों, यदि कोई हो, , भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के विनियमन 44 और कॉपोरेंट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार और सेवी द्वारा जारी इस विषय पर सभी लागू परिपत्रों के अनुपालन में, 01 जनवरी, 2026 से 31 दिसंबर, 2028 तक 3 साल की अवधि के लिए कंपनी के अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक के रूप में नामित पूर्णकालिक निदेशक के रूप में श्री आर. एस. जीहर (डीआईएन: 00746186) की नियक्ति के लिए विशेष प्रस्ताव केवल रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बैलेट के माध्यम से पारित करने के लिए कंपनी के सदस्यों के विचार के लिए प्रस्तावित किया जा रहा है।

र्कपनी ने 24 नवंबर, 2025 को पोस्टल बैलेट नोटिस ('नोटिस') केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेज दिया है, जिनके इं-मेल पते कर-ऑफ तिथि यानी बुधवार, 19 नवंबर, 2025 को डिपॉजिटरी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए') के साथ पंजीकृत थे। जिन सदस्यों के ईमेल पत्ते आरटोए/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकत नहीं हैं. वे अपने इंमेल पते को आरटीए/डिपॉजिटरी के साथ नोटिस में उल्लिखित के अनुसार पंजीकृत करने की प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। नेटिस, पोस्टल बैलेट फॉर्म और प्री-पेड बिजनेस रिप्लाई लिफाफे की भौतिक प्रतियां सदस्यों को नहीं भेजी जा रही हैं।

कृपया ध्यान दें कि केवल वे सदस्य, जिनके नाम कट-ऑफ तिथि पर आरटीए/डिपॉजिटरी द्वारा प्रवेधित हकदार होंगे। जिस तरह से भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य या जिनके ईमेल पते कटऑफ तिथि तक पंजीकत नहीं हैं. वे नोटिस में दी गई प्रक्रिया का पालन करके अपना वोट डाल सकते हैं। नोटिस र्कपनी को वेबसाइट https://jaispring.com/annual-and-financial-report- financial.aspx?financial-year=2025-2026 पर भी उपलब्ध है और इसे स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी देखा जा सकता है। जिन सदस्यों को नोटिस नहीं मिला है वे इसे उपर्यक्त वेबसाइटों से डाउनलोड कर सकते हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि ये केवल ई-वोटिंग के माध्यम से अपनी सहमति (के पक्ष में) या असहमति (विरुद्ध) प्रदान करें। कंपनी ने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की सेवाएं ली हैं। ई-वोटिंग की विस्तत प्रक्रिया नीटिस में दी गई है। रिमोट ई-बोटिंग अवधि रविवार, 30 नवंबर, 2025 को सुबह 9:00 बजे शुरू होगी और सोमधार, 29 दिसंबर, 2025 की शाम 5:00 बजे समाप्त होगी। इसके तुरंत बाद एनएखडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग सविधा को अक्षम कर दिया जाएगा।

1. ई-वोटिंग से जुड़े किसी भी मुद्रे∕प्रश्न के मामले में, सदस्य एनएसडीएल से evoting@nsdl.com पर संपर्क कर सकते हैं या एनएसडीएल के टोल फ्री नंबर 022 - 48867000/022 - 24997000 पर कॉल कर सकते हैं या investor.relations@jaispring.com पर मैल भेज सकते हैं।

कंपनी के निदेशक मंडल ने निष्पक्ष और फरदर्शी तरीके से रिमोट ई-चोटिंग के माध्यम से इस पोस्टल बैलेट प्रक्रिया को संचालित करने के लिए मैसर्स आरएसएम एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्नेटरी (सदस्यता संख्या 4468) को संबीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। ई-बोटिंग द्वारा पोस्टल बैलेट की संवीक्षक रिपोर्ट के साथ परिणाम ई-वोटिंग प्रक्रिया के समापन के 2 कार्य दिवसों के भीतर घोषित किए जाएंगे और यह कंपनी, एनएसडीएल, एनएसई और बीएसई की वेबसाइटी पर उपलब्ध होंगे।

> जमना ऑटो इंडस्टीज लिमिटेड के लिए प्रवीण लखेरा कंपनी सचिव एवं प्रमुख-विधि



आर्चीज लिमिटेड

स्थानः दिल्ली

दिनांकः 25 नवंबर, 2025

पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट नं. 191एफ, सेक्टर-4, आईएमटी मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा-122050 सीआईएन: L36999HR1990PLC041175, वेब : www.archiesonline.com और www.archiesinvestors.in ईमेल : archies@archiesonline.com, दूरमाष : +91 124 4966666

डाक मतपत्र और दूरस्थ ई-वोटिंग की सूचना एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 108, 110 और

अन्य लागु प्रावधानों, यदि कोई हो, के प्रावधानों के अनुसरण में कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 ('नियम') के नियम 20 और 22, भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के विनियम 44, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ('एसएस-2') द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक, प्रत्येक संशोधित, सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और समय–समय पर जारी किए गए बाद के परिपत्र, नवीनतम सामान्य परिपत्र संख्या 3/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025 है जो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। ('एमसीए परिपत्र') ई–वोटिंग के माध्यम से सामान्य बैठकें आयोजित करने / डाक मतपत्र प्रक्रिया संचालित करने तथा किसी अन्य लागू कानून, नियम और विनियमों के लिए कि नीचे दिए गए संकल्प को कंपनी के सदस्यों द्वारा डाक मतपत्र द्वारा केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ('रिमोट ई–वोटिंग') के माध्यम से मतदान करके अनुमोदन के लिए प्रस्तावित किया जाता है।

क्र. सं.	विवरण	प्रस्ताव का प्रकार
1	मैसर्स दयाल एंड मौर, कंपनी सचिवों की लगातार 5 (पाँच) वर्षों की अवधि के लिए कंपनी के सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्ति।	साधारण प्रस्ताव
2	श्री रिजुल बंसल की कंपनी के अकार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति।	विशेष प्रस्ताव

एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने मंगलवार 25 नवंबर, 2025 को उन सभी सदस्यों को केवल इलेक्टॉनिक मोड के माध्यम से डाक मतपत्र नोटिस भेजा है, जिन्होंने कंपनी या रजिस्टार और शेयर टांसफर एजेंट (आरटीए) यानी एमयजीएफ इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत किए हैं और जिनका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी के साथ बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में कट-ऑफ तारीख यानी 14 नवंबर 2025 तक दिखाई देता है। मतपत्र फॉर्म के साथ डाक मतपत्र नोटिस की भौतिक प्रति नहीं भेजी जा

पोस्टल बैलेट नोटिस कंपनी की वेबसाइट https://archiesinvestors.in/investors/, स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई और एनएसई) की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com, और एमयुएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट https://instavote/linkintime.co.in/ पर भी उपलब्ध होगा।

ई—वोटिंग के लिए निर्देशः कंपनी ने इंस्टावोट की सेवाएँ ली हैं, जिससे सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से और सुरक्षित तरीके से अपना वोट डाल सकें। रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की विस्तृत प्रक्रिया नोटिस में दी गई

रिमोट ई—वोटिंग बुधवार, 26 नवंबर 2025 को सुबह 9:00 बजे से शुरू होकर गुरुवार, 25 दिसंबर 2025 को शाम 5:00 बजे तक चलेगी। इस अवधि के दौरान, कट—ऑफ तिथि तक भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकेंगे। सदस्यों से अनुरोध है कि वे गुरुवार, 25 दिसंबर 2025 तक रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से अपनी सहमति (समर्थन में) या असहमति (विरोध में) दर्ज कराएँ। सदस्यों के मताधिकार कट–ऑफ तिथि तक कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होंगे। एक बार सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर मतदान कर दिए जाने के बाद, सदस्य बाद में उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकेगा। वे सदस्य जो भौतिक रूप में शेयर धारण कर रहे हैं और उन्होंने कंपनी के साथ अपनी ई–मेल आईडी अपडेट नहीं की है, उनसे अनुरोध है कि वे विधिवत भरे और हस्ताक्षरित फॉर्म आईएसआर-1 (पैन, केवाईसी विवरण या उसमें परिवर्तन/अपडेशन के लिए फॉर्म) के साथ पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति और पते के प्रमाण के रूप में किसी भी दस्तावेज की स्व-सत्यापित प्रति (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, मास्क्ड आधार, आदि) कंपनी के आरटीए को नीचे दिए गए पते पर या enotices@in.mpms.mufg.com पर ई-मेल द्वारा जमा करके इसे अपडेट

कंपनी के निदेशक मंडल ('बोर्ड') ने शुक्रवार, 14 नवंबर, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में मैसर्स दयाल एंड मौर कंपनी सेक्रेटरीज (सीओपी संख्याः 7142) को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई–वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बैलट के संचालन के लिए जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया।

यदि प्रस्ताव अपेक्षित बहुमत से पारित हो जाते हैं, तो उन्हें ई–वोटिंग के लिए निर्दिष्ट अंतिम तिथि. यानी गुरुवार, 25 दिसंबर 2025 को पारित माना जाएगा, मानो वे शेयरधारकों की आम बैठक में पारित किए गए हों।

परिणाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में शनिवार, 27 दिसंबर 2025 को या उससे पहले घोषित किए जाएंगे और बीएसई लिमिटेड ('बीएसई'), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ('एनएसई') (सामूहिक रूप से 'स्टॉक एक्सचेंज') और एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सूचित किए जाएंगे, और कंपनी की वेबसाइट www.archiesinvestors.in पर भी प्रदर्शित किए जाएंगे। किसी भी प्रश्न के लिए, आप https://instavote.linkintime.co.in पर सहायता अनुभाग में उपलब्ध सदस्यों के लिए प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई–वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या enotices@in.mpms.mufg.com अथवा investorservices@archiesonline.com पर ईमेल लिख सकते हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि वे सूचना में दिए गए सभी निर्देशों। और विशेष रूप से रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने की विधि को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

> कृते आर्चीज लिमिटेड हस्ता./-(चिरंजीवी रामुका) कंपनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी

बोर्ड के आदेशानुसार

(Q) pnb Housing

वेजीवृत कार्यास्य : प्रवां तस, अंतरिक काल, 22, के और अर्थ, भई विसर्व-110001, हुआल को वार.25557771, 25557772, 25705414, वेस शाखा कार्यालय :- सी2/21, फर्स्ट पतीर, सी ब्लॉक, माता चानन देवी रोड, जनकपुरी, नई दिल्ली -- 110056 तिथि के अनुसार संशोधित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावसी 2002 के नियम 3(1) के साथ

परित विसीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुत्रविर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रयतिव अधिवियम 2002 के अध्याय ।।। की धारा 13(2) के अंतर्गत सुचना हम्, पीएनवी कार्यसम् पाइनेस निमिटेड (पहाँ इसके बाद ''विपनवीएनएकएल'' के रूप में संदर्जिल ने विशेष परिस्तितार्थ के प्रतिनृतिकरण एवं पुनर्निर्धाण कथा प्रतिनृति हिट प्रतीन आ 2002 (वर्डी इसमें इसके उपरीत अधिनियम के रूप में संदर्भित) के अध्यय ।।। की बात 1922) के आगंग हमारी जनकपूरी शास्त्रों के कार्यासव जो सी2 /21, फर्स्ट फ्लोर सी ब्लॉक मा बनन देवी रोड, जनकपुरी, नई दिल्ली – 1100ss में रिश्त है के मध्यम से मीग सुबना निर्मत की थी। जका मीम सुबना जो है यह हमारे प्राधिकृत कविकारी के मध्यम से नीये वर्णित क -उधारकवांओं / सेंह--उधारकतांओं / गारंटरों को निर्मत की मई की और ऐसा इसिक्षेट किया गया वा क्योंकि आँगर्क खाटे को किस्तों / ब्योंक का भुगतान न करने के कारण मास्ती रिकर्व बैक 🖊 शाद्रीय कावांसन बैक के विशामिर्देशों के अनुसार अनिसादनकारी परिस्थानियों के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। एस की विश्ववस्तु को है वह मुख्यन, स्थान इत्यादि व कियलों के मुगतान में आपके द्वारा की गई चुके हैं। बकाया चीने का परलेखन नीचे लालिका में किया गया है। इसके अतिरिक्त अनेक कारणों से, हम मानते हैं कि आर मींग सूचना । लनानुपालन करने से बच एडे हैं और इसलिये हम उक्त अधिनियम की यास (३(६) के अंतरीत मी अनिवार्य का चुकी इस भीग सूचना का यह क्कारान कर रहे हैं। आपको एकपूड़ारा इस भी पुराना के प्रकारन की लिख से \infty दिनों की एकावधि के मीलर पीएनबीएवएफएल को अदातन ज्यान और शुल्कों के लाथ निम्म वालिका में अंकित राशि का भुगवान करने का निर्देश देते 🤅 नतान करने में विफल होने पर वीएनबीएकएफएल जो है वह उस्त अधिनियम की धारा 19(4) के सभी या किनी भी प्रावधान के तहत सभी प्रतिमृत परिसंपत्तियों वा इनमें से किनी एक व्य अधिक के विरुद्ध अनिवार्य कार्रवाई / उपाय करेगी, जिसमें उधारकर्ताओं और गारटरों की प्रतिभूत परिस्पतियों पर अविष्ठारण किए जाने की कार्रवाई मी समिनित होगी। आवका च्यान वितीय परिसंपतियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्भाण तथा महिसूति दिव प्रवर्तन अधिनियन 2002 की धारा 13 की उप-धारा (ह) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिल अंतर्गत आप निजी सबि प्राप्त अध्या अनाव से कोटेकर व निविच निजीवत करके सार्वजनिक तीलामी प्राप्त प्रतिमूत परिवर्गति के विक्रयाध सूकन के प्रकार ने विविध तक ही पीएनबेंट्यएकर द्वारा व्हलकृत रामकर लानती, प्रमारों एवं कर्यों के साथ ककार्य की संपूर्ण तकि का पुगतान कर सकते हैं / तके चुका सकते हैं। कुम्या स्थान दें कि पवि निजी सबि प्राप्त अध्या जनता

कोटेकने व निविदा निर्मात्रित करके वर्णजनिक नीतार्थ द्वारा प्रतिभूत परिवर्धनियों के विकासने कुनना के प्रवर्धन से पूर्व पीएनबीट्रबएकएल द्वारा कानकत शासरा जागारों, प्रवर्ध से बा

बकार्य भी संपूर्व राशि का भुगवान नहीं किया जाता है 🗸 उसे नहीं पुनवया जाता है तो इस अवधि के उपरीत आप प्रतिभूत परिसर्वनिक्ष के के अपनुस्त करने के अधिकारी नहीं होंगे। इस

जनसता

क स	अस्य खाता संख्या	व्यवस्था एवं यह-व्यवस्था का तथा एवं वहा	गासंदर का जाम एवं पता	क्षक्ष्मण संपत्ति	भीग सूचना की तिथि	बीग सूचना विधि के अनुसार बकाया गति
1.		वीवार्ति जीति (विदेश्व (त्राव्यव्यक्ती) और विद्यान विद्यान व्यक्ति (त्राव्य प्रतिप्र) (त्राव-व्यव्यवक्ती) व्यक्ति । व्यक्ति त्राव्य - च्रा-व्यक्ति क्ष्य - व्यक्ति व्यक्ति क्ष्य - व्यक्ति विष्णविष्णविष्णविष्णविष्णविष्णविष्णविष्ण	\$350	प्राप्तरी-267. १. टावर- ए. एसपीए बीज मेहल, जीएम-प्राप्त, तीवटर-12, उत्पादा प्रीत, गीवन कुढ़ गयर, बेटर-नीएस, जाम प्रवेश – 261361	20.11.2085	 ठ. २०,४७ १८८ १५ /- (१९४१) चन्यीत लाख तैयांक्ति ठाला ठात भी पेग्रा और पंदर पेश प्रतः १८.11.2025 के अनुसार प्रकाय।

POST OFFER ADVERTISEMENT UNDER REGULATION 18(12) OF THE SEBI (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED ("SEBI (SAST) REGULATIONS") FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

V.I.P. INDUSTRIES LIMITED

CIN: L25200MH1968PLC013914 Registered office: 5th Floor, DGP House, 88 C, Old Prabhadevi Road, Mumbai, Maharashtra, 400 025, Tel No.: +91 (22) 6653 9000; Website: www.vipindustries.co.in

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP TO 3,70,56,229 (THREE CRORE SEVENTY LAKH FIFTY SIX THOUSAND TWO HUNDRED AND TWENTY NINE ONLY) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HAVING FACE VALUE OF INR 2/- (INDIAN RUPEES TWO ONLY) EACH ("EQUITY SHARES"), REPRESENTING 26.03% (TWENTY SIX POINT ZERO THREE PERCENT) OF THE EXPANDED SHARE CAPITAL OF V.I.P. INDUSTRIES LIMITED ("TARGET COMPANY"), AT A PRICE OF INR 388.00/- (INDIAN RUPEES THREE HUNDRED AND EIGHTY EIGHT ONLY) PER EQUITY SHARE ("OFFER PRICE"), IN ACCORDANCE WITH THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED ("SEBI (SAST) REGULATIONS"), FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY BY MULTIPLES PRIVATE EQUITY FUND IV ("ACQUIRER 1"), MULTIPLES PRIVATE EQUITY GIFT FUND IV ("ACQUIRER 2", AND TOGETHER WITH ACQUIRER 1, "ACQUIRERS"), TOGETHER WITH SAMVIBHAG SECURITIES PRIVATE LIMITED ("PAC 1"), MITHUN PADAM SACHETI ("PAC 2"), SIDDHARTHA SACHETI ("PAC 3") AND PROFITEX SHARES AND SECURITIES PRIVATE LIMITED ("PAC 4", AND TOGETHER WITH PAC 1, PAC 2 AND PAC 3, "PACS"), IN THEIR CAPACITY AS PERSONS ACTING IN CONCERT WITH THE ACQUIRERS, PURSUANT TO AND IN COMPLIANCE WITH THE SEBI (SAST) REGULATIONS ("OFFER")"OPEN OFFER").

This post offer advertisement ("Post Offer Advertisement") is being issued by JM Financial Limited, the manager to the Open Offer ("Manager to the Offer" or "Manager"), in respect of the Open Offer, for and on behalf of the Acquirers and the PACs to the Public Shareholders of the Target Company, pursuant to and in accordance with Regulation 18(12) of the SEBI (SAST) Regulations.

This Post Offer Advertisement should be read in continuation of and in conjunction with: (a) the Public Announcement dated July 2025 ("PA"); (b) the Détailed Public Statement that was published in Financial Express - English (all editions), Jansatta -Hindi (all editions) and Navshakti - Marathi (Mumbai edition) on July 18, 2025 ("DPS"); (c) the Letter of Offer dated October 23, 2025, along with Form of Acceptance ("LOF"); and (d) the Pre-Offer Advertisement and Corrigendum to the DPS ("Pre-Offer Advertisement") that was published on October 31, 2025, in all the newspapers in which the DPS was published. This Post Offer Advertisement is being published in all the newspapers in which the DPS was published.

Capitalized terms used but not defined in this Post Offer Advertisement shall have the meaning assigned to such terms in the LOF. The Public Shareholders of the Target Company are requested to kindly note the following information with respect to the Open Offer:

	Name of the Target Company:	V.I.P. Industries Limited		
2.	Name of the Acquirers and PACs:	Multiples Private Equity Fund IV (Acquirer 1) Multiples Private Equity GIFT Fund IV (Acquirer 2) Samvibhag Securities Private Limited (PAC 1) Mithun Padam Sacheti (PAC 2) Siddhartha Sacheti (PAC 3) Profitex Shares and Securities Private Limited (PAC 4)		
3.	Name of the Manager to the Offer:	JM Financial Limited		
4.	Name of the Registrar to the Offer:	KFin Technologies Limited		
5.	Offer Details:			
	a) Date of Opening of the Offer:	Monday, November 3, 2025		
	b) Date of Closure of the Offer:	Monday, November 17, 2025		
6.	Date of Payment of Consideration:	Thursday, November 20, 2025		

6. De	Date of Payment of Consideration: etails of Acquisition:	10	Thursday, November	ev, 2023		
SI. No.	Particulars	Proposed	in the LOF®	Acti	uals ⁽¹⁾	
7,1	Offer Price (per Equity Share)	INR S	388.00/-	INR 3	88.00/-	
7.2 Aggregate number of Equity Shares tendered in the Offer		3,70,	56,229 ⁽²⁾	23)	62374	
7.3	Aggregate number of Equity Shares accepted in the Offer	3,70,	56,229 ⁽²⁾	23)	623 ⁽³⁾	
7,4	Size of the Offer (Number of Equity Shares multiplied by Offer Price)	INR 1,437,	78,16,852/- ⁽²⁾	INR 91	,65,724/-	
7.5	Shareholding of the Acquirers and the PACs before agreements/ public announcement Number Mof Equity Share Capital	Acquirer 1; Nil (0.00%) Acquirer 2; Nil (0.00%) PAC 1; Nil (0.00%) PAC 2; Nil (0.00%) PAC 3; Nil (0.00%) PAC 4; Nil (0.00%)		Acquirer 2 PAC 1: N PAC 2: N PAC 3: N	: Nif (0.00%) : Nif (0.00%) (0.00%) (0.00%) (0.00%) (0.00%)	
7.6	Equity Shares acquired by way of agreements Number Mof Equity Share Capital	Acquirer 1: 28,58,544 (2.01%) ⁽⁴⁾ Acquirer 2: 31,52,461 (2.21%) ⁽⁴⁾ PAC 1: 22,12,517 (1.55%) ⁽⁴⁾ PAC 2: 83,277 (0.06%) ⁽⁴⁾ PAC 3: 83,277 (0.06%) ⁽⁴⁾		perments Acquirer 2: 31,52,461 (2.21%) ⁽⁶⁾ Acquirer 2: 31,52,46 umber PAC 1: 22,12,517 (1.55%) ⁽⁶⁾ PAC 1: 22,12,517 of Equity Share Capital PAC 2: 83,277 (0.06%) ⁽⁴⁾ PAC 2: 83,277 (8,544 (2.01%) ⁽⁵⁾ (2,461 (2.21%) ⁽⁵⁾ (517 (1.55%) ⁽⁸⁾⁽⁶⁾ (77 (0.06%) ⁽⁸⁾⁽⁶⁾ (77 (0.06%) ⁽⁸⁾⁽⁶⁾
7,7	Equity Shares acquired by way of Open Offer Number Government of the state of the	Open Offer Acquirer 2: 1,39,23,381 (9.78%) ²⁾ Number PAC 1: 97,71,967 (6.86%) ²⁾		Acquirer 1: 8,049 (0.01%) Acquirer 2: 8,876 (0.01%) PAC 1: 6,230 (0.00%) PAC 2: 234 (0.00%) PAC 3: 234 (0.00%) PAC 4: NII (0.00%)		
7.8	Equity Shares acquired after Detailed Public Statement ⁽⁷⁾ • Number and price of Equity Shares acquired • % of Equity Share Capital	Nil (Nil)		(1	Nil Nil)	
7.9	Post Offer shareholding of the Acquirers and the PACs Number Graph of Equity Share Capital	Acquirer 2: 1,70 PAC 1: 1,19,6 PAC 2: 4,51 PAC 3: 4,51	,83,805 (10.87%) ^[2] ,75,842 (11.99%) ^[2] ,4,484 (8.42%) ^[2] ,087 (0.32%) ^[2] ,087 (0.32%) ^[2] ,087 (0.00%)	Acquirer 2: 31,1 PAC 1: 22,18 PAC 2: 83,5 PAC 3: 83,5	66,593 (2.01%) ⁽⁶ 61,337 (2.22%) ⁽⁶ 6,747 (1.56%) ⁽⁶⁾ 511 (0.06%) ⁽⁶⁾ 511 (0.06%) ⁽⁶⁾ W (0.00%)	
7.10	Pre & Post offer shareholding of the Public Shareholders ⁽⁸⁾	Pre-offer	Post-offer ⁽²⁾	Pre-offer	Post-offer	
	Number	6,93,63,107	3,23,06,878	6,93,63,107	6,93,39,484	
	% of Equity Share Capital	(48.72%)	(22.69%)	(48.72%) (48.70%)		

Percentage calculated based on the Expanded Share Capital as on the date of the LOF, i.e., 14,23,80,784 Equity Shares.

(2) Assuming full acceptance in the Open Offer. (3) All the 23,623 Equity Shares that were validly tendered in the Open Offer are in dematerialised form.

(4) Computed assuming full acceptance in the Open Offer and, consequently, no Tranche 2 Sale Shares will be acquired by the Acquirers, PAC 1, PAC 2 and PAC 3 under the SPA. In terms of the SPA, the number of Tranche 2 Sale Shares to be acquired by the Acquirers, PAC 1, PAC 2 and PAC 3 will depend on the number of Equity Shares tendered and accepted in the Open Offer. (5) Pursuant to the SPA, on September 26, 2025, the Acquirers and the PACs have acquired an aggregate of 83,90,076 Equity

Shares, representing 5.89% of the Expanded Share Capital. (6) In terms of the SPA, the Acquirers and the PACs propose to additionally acquire the Tranche 2 Sale Shares, i.e., up to a maximum of 3,70,56,229 (three crore seventy lakh fifty six thousand two hundred and twenty nine) Equity Shares, epresenting 26.03% of the Expanded Share Capital, reduced by the number of Equity Shares tendered and accepted in the

(7) Excluding those Equity Shares specified in st. nos. 7,6 and 7.7.

(8) Includes 3,29,350 Equity Shares that may be allotted pursuant to exercise of 3,29,350 employee stock appreciation rights that have vested / are expected to vest on or prior to March 31, 2026 (assuming 1 Equity Share is allotted upon exercise of 1 employee stock appreciation right).

8 Other information

8.1 The Acquirers and the PACs accept full responsibility for the information contained in this Post Offer Advertisement and also

for the obligations of the Acquirers and the PACs laid down in the SEBI (SAST) Regulations in respect of the Open Offer. 8.2 A copy of this Post Offer Advertisement is expected to be available on the websites of SEBI (www.sebi.gov.in), BSE Limited. (www.bseindia.com), National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and at the registered office of the Target Company.

Issued on behalf of the Acquirers and the PACs by the Manager to the Offer

JM Financial Limited

Address: 7th Floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg. Prabhadevi, Mumbai - 400025, India Telephone: +91 22 6630 3030; Fax: +91 22 6630 3330 E-mail: vipind.openoffer@jmfl.com JM Financial Contact Person: Prachee Dhuri Website: www.jmfl.com SEBI Registration Number: INM000010361

Registrar to the Offer

KFin Technologies Limited Address: Selenium, Tower- B, Plot No. 31 & 32, Financial district, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Telangana, India, 500032 Telephone: +91 40 6716 2222/18003094001; Fax: +91 40 6716 1563

CIN: L72400MH2017PLC444072



Place: Mumbai Date: November 25, 2025

Adfactors 650/25

epaper.jansatta.com